



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 16, 1979/आश्विन 24, 1901
No. 417] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 1979/ASVINA 24, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1979

का. आ. 582 (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का
10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (नियंत्रण) आदेश,
1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कागज (नियंत्रण) आदेश, 1979 में,—

- (1) खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) और (घ) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा
जाएगा, अर्थात् :—

“और प्रति वर्ग मीटर 60 ग्राम भार का हो, किन्तु, उसकी सहायता सीमा यह
होगी, जो सुसंगत भारतीय मानक संस्थान विनिर्देश के अनुसार अधिकतम
ग्राम भार के अनुरूप अनुज्ञात की जाए”।

(2) खण्ड 6 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“6-क इस आदेश के कृषि उपबंधों का कतिपय विनिर्माताओं को लागू न होना—खण्ड 6 की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) ऐसा विनिर्माता, जिसकी कागज या कागज के गत्ते के विनिर्माण की प्रतिष्ठापित क्षमता प्रति वर्ष 10,000 टन से कम है ;

(ख) ऐसा विनिर्माता, जो खाई, पत्थर-बन्त, मैस्टा, अनाज तृण, रूखी कागज, या हाथी घास जैसे अपरम्परागत कच्चे पदार्थों का, उसके द्वारा विनिर्मित लिखाई और छपाई के कागज में भार के अनुसार गूदे का प्रयोग कम से कम पञ्चहत्तर प्रतिशत तक करता है ;

(ग) ऐसा विनिर्माता, जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक, 1-1-76 को या उसके पश्चात् चालू की गई है ।

[फा. सं. 12(3)/79-कागज]

बी. आर. आर. अयंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 582(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes following Order to amend the Paper (Control) Order, 1979, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Control) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Paper (Control) Order, 1979—

(1) in clause 2, in sub-clauses (b) & (d), the following shall be added at the end, namely :—

“and weighing 60 grammes per square metre, subject however to the tolerance limit permitted on nominal grammage as per relevant Indian Standards Institution specification”.

(2) after clause 6, the following clause shall be inserted, namely :—

“6-A. Certain provisions of the Order not to apply to certain manufacturers—Nothing in clause 6 shall apply to :—

(a) a manufacturer whose installed capacity for the manufacture of paper and paper boards is less than 10,000 tonnes per annum;

(b) a manufacturer who utilises un-conventional raw material like bagasse, jute stalks, mesta, cereal straw waste paper, or elephant grass, to the extent of not less than seventy five per cent by weight, for pulp in the writing and printing paper manufactured by him ;

(c) a manufacturer whose installed capacity has been commissioned on or after 1-1-76, upto a period of five years from the date of commencement of commercial production.

[F. No. 12(3)/79-Paper]

B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.